

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 24, शक 1945

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-97/दो-गृह/रापुरसे/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 2 के खण्ड (च) में, शब्द एवं चिन्ह “निरीक्षक (आम्स)” के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह “निरीक्षक-अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक), निरीक्षक-अनुसचिवीय (वरिष्ठ रिपोर्टर)” जोड़ा जाये।
2. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (घ) में, शब्द “महिलाओं के लिये” के स्थान पर, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य की केवल स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये” प्रतिस्थापित किया जाये।
3. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (च) में, शब्द “महिला आवेदकों” के स्थान पर, शब्द “छत्तीसगढ़ राज्य की केवल स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों” प्रतिस्थापित किया जाये।
4. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ज) का लोप किया जाये।
5. नियम 13 के उप-नियम (1) में, शब्द “दो वर्ष”, के स्थान पर, शब्द “तीन वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये।

6. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 18 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"18(क)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा एवं उसके कैम्प कार्यालय (आईजी/डीआईजी रेंज)	03	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग
(ख)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाईयों	06	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाई संवर्ग
(ग)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय,, विशेष शाखा	01	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग
(घ)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी)	01	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग

7. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 21 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	उप पुलिस अधीक्षक - अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग	04	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग
23	उप पुलिस अधीक्षक - अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	01	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निरीक्षक- अनुसचिवीय (वरिष्ठ रिपोर्टर) ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग

8. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8(क)	उप पुलिस अधीक्षक -अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा एवं उसके कैम्प कार्यालय (आईजी/डीआईजी रैंज)	03	-	100%
(ख)	उप पुलिस अधीक्षक - अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाईयां	06	-	100%
(ग)	उप पुलिस अधीक्षक - अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	01	-	100%
(घ)	उप पुलिस अधीक्षक - अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी)	01	-	100%

9. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग	04	—	100%
13.	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	01	—	100%"

10. अनुसूची-चार के भाग-अ के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8(क)	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा एवं उसके कैम्प कार्यालय (आईजी/डीआईजी रैंज)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
(ख)	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाई संवर्ग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाई	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
(ग)	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
(घ)	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार"

11. अनुसूची-चार के भाग-अ के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	निरीक्षक- अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
13.	निरीक्षक-अनुसचिवीय (वरिष्ठ रिपोर्टर) ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार"

12. अनुसूची-छ: के पार्ट-1 के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8(क)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा एवं उसके कैम्प कार्यालय (आईजी/डीआईजी रेंज)	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग
(ख)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाई	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक- अनुसचिवीय ➤ जिला/इकाई संवर्ग

(ग)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक— अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग
(घ)	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी)	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक— अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग

13. अनुसूची-छ: के पार्ट-1 के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक— अनुसचिवीय (शीघ्रलेखक) ➤ पुलिस मुख्यालय, सामान्य शाखा संवर्ग, जिला/इकाई संयुक्त संवर्ग एवं अपराध अनुसंधान विभाग
13.	उप पुलिस अधीक्षक – अनुसचिवीय ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा	-	कुल पदों का 100%	निरीक्षक— अनुसचिवीय (वरिष्ठ रिपोर्टर) ➤ पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा संवर्ग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., सचिव.

Atal Nagar, the 15th September 2023

NOTIFICATION

No. F-2-97/Two-Home/S.P.S./2019 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 2005, namely :-

AMENDMENTT

In the said rules,-

- 1- In clause (f) of rule 2, after the words and symbol "Inspector (Arms)", the words and symbol "Inspector-Ministerial (Stenographer), Inspector-Ministerial (Senior Reporter)" shall be added.
- 2- In sub-clause (d) of clause (1) of rule 8, for the words "for the women candidates", the words "for the Women candidates only who are local residents of State of Chhattisgarh" shall be substituted.
3. In sub-clause (f) of clause (1) of rule 8, for the words "women candidates", the words "Women candidates only who are local residents of State of Chhattisgarh" shall be substituted.
4. Sub-clause (h) of clause (1) of rule 8 shall be omitted.
5. In sub-rule (1) of rule 13, for the words "Two years", the words "Three years" shall be substituted.
6. For serial number 18 of Schedule-I and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"18(A)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch and its camp offices (IG/DIG Range)	03	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre
(B)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Districts/ Units	06	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial ➤ District/ Unit Cadre

(C)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	01	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarter, Special Branch Cadre
(D)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters Crime, Investigation Department (CID)	01	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarters , Crime Investigation Department Cadre .”

7. After serial number 21 of Schedule-I and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"22.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department.	04	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department.
23.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	01	-do-	-do-	-do-	Inspector-Ministerial . (Senior Reporter) ➤ Police Headquarters, Special Branch Cadre.”

8. For serial number 8 of Schedule-II and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8(A)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters General Branch and its camp offices (IG/DIG Range)	03	-	100%
(B)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Districts/ Units	06	-	100%
(C)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	01	-	100%
(D)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Crime Investigation Department (CID)	01	-	100%

9. After serial number 11 of Schedule-II and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department	04	-	100%
13.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	01	-	100%

10. For serial number 8 of Part-A of Schedule-IV and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8(A)	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch and its camp offices (IG/DIG Range)	6 years	As mentioned above
(B)	Inspector-Ministerial ➤ Districts/ Units Cadre	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ District/ Unit	6 years	As mentioned above

(C)	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch Cadre	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	6 years	As mentioned above
(D)	Inspector-Ministerial ➤ Police Headquarters, Crime Investigation Department Cadre	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Crime Investigation Department (CID)	6 years	As mentioned above"

11. After serial number 11 of Part-A of Schedule-IV and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	Inspector-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department	Dy. Supdt. of Police-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department	6 years	As mentioned above
13.	Inspector-Ministerial (Senior Reporter) ➤ Police Headquarters, Special Branch Cadre	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	6 years	As mentioned above"

12. For serial number 8 of Part-I of Schedule-VI and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8(A)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch and its camp offices (IG/DIG Range)	-	100% of Total Posts	Inspector- Ministerial ➤ Police Headquarters, General Branch Cadre
(B)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Districts/ Units	-	100% of Total Posts	Inspector- Ministerial ➤ District/ Unit Cadre
(C)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	-	100% of Total Posts	Inspector- Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch Cadre
(D)	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Crime Investigation Department (CID)	-	100% of Total Posts	Inspector- Ministerial ➤ Police Headquarters, Crime Investigation Department Cadre"

13. After serial number 11 of Part-I of Schedule-VI and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters , General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department	-	100% of Total Posts	Inspector- Ministerial (Stenographer) ➤ Police Headquarters , General Branch Cadre, District/Unit Joint Cadre and Crime Investigation Department
13.	Dy. Supdt. of Police-Ministerial ➤ Police Headquarters, Special Branch	-	100% of Total Posts	Inspector-Ministerial (Senior Reporter) ➤ Police Headquarters, Special Branch Cadre"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BASAVRAJU S., Secretary.